

## Seattle Raising-the-Bar Recovery Fund

The Seattle Raising-the-Bar Recovery Fund (द सिएटल रेजिंग-द-बार रिकवरी फंड) उन रेस्तरां के लिए एक अनुदान निधि है जो सिएटल शहर में स्थित हैं और जिनका स्वामित्व वाशिंगटन राज्य में रहने वाले एशियाई और/या प्रशांत महासागर द्वीप वासी मूल के लोगों के पास है। **चयनित किए जाने वाले योग्य व्यवसायों के लिए \$7,500 के लगभग 300 अनुदान उपलब्ध हैं।** इस निधि को Seattle Chinatown International District Preservation and Development Authority (सिएटल चाइनाटाउन अंतरराष्ट्रीय जिला संरक्षण एवं विकास प्राधिकरण) □□ Washington Hospitality Association (वाशिंगटन हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन) द्वारा संयुक्त रूप से उदार कॉर्पोरेट दाता की ओर से प्रशासित किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण जानकारी:

- आवेदन **शुक्रवार, 29/10/21 को सुबह 10 बजे खुलेगा और शुक्रवार, 19/11/21 को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा।**
- पात्रता प्राप्त करने के लिए, एक व्यवसाय को निम्न होना होगा:
  - इसे सिएटल शहर की सीमा के भीतर स्थित होना चाहिए। इसमें अनिगमित किंग काउंटी शामिल नहीं होनी चाहिए।
  - ये वाशिंगटन राज्य में रहने वाले एशियाई और या प्रशांत महासागर द्वीप वासी मूल के लोगों के स्वामित्व में होने चाहिए।
- फंडिंग के लिए पूर्ण-सेवा वाले रेस्तरां को प्राथमिकता दी जाएगी; सीमित और त्वरित सेवा वाले रेस्तरां पर भी विचार किया जाएगा।
- ऐसे रेस्तरां जिन्हें इससे पहले कोई कोविड-19 अनुदान सहायता नहीं मिली है, या जिनका कुल अनुदान \$20,000 से कम का है को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
- चयनित व्यवसायों की Washington State Department of Revenue (वाशिंगटन राज्य का राजस्व विभाग) के साथ वर्तमान लाइसेंसिंग और स्वामित्व के लिए जांच की जाएगी। ऐसे व्यवसाय जिनके पास इस समय लाइसेंस नहीं है या जो गलत जानकारी प्रदान करते हैं, को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- व्यवसायों को अपने आवेदन के साथ एक पूर्ण किए □□ W-9 (डब्ल्यू-9) सहित अपनी कर पहचान संख्या को अपलोड करना होगा और वाशिंगटन राज्य की ओर से उनकी Unified Business Identification number (UBI एकीकृत व्यावसायिक पहचान संख्या) प्रदान करनी होगी। आवेदन को

सहेजा नहीं जा सकता है, इसलिए आवेदन करते समय आवेदकों के पास यह जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। W-9 फॉर्म [इस लिंक पर](#) देखे जा सकते हैं।

- जिन व्यवसायों के मालिकों की अंग्रेजी साक्षरता सीमित है, उनको आवेदन करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है। आवेदन कई भाषाओं में उपलब्ध है और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में पूरा किया जा सकता है। भाषा में सहायता [cidbizrelief@scidpda.org](mailto:cidbizrelief@scidpda.org) के माध्यम से उपलब्ध है। कृपया सहायता के लिए ईमेल करें, आवश्यक भाषा उल्लिखित करें और फ़ोन नंबर दें। आवेदन को पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए कोई स्टाफ सदस्य या दुभाषिया आपसे संपर्क करेगा। कृपया भाषा सहायता का अनुरोध जल्द से जल्द करें, ताकि आवेदन बंद होने से पहले हमारे पास आपकी सहायता करने का समय हो।